

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12—नवम्बर 18, 2016 (कार्तिक 21, 1938)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12—NOVEMBER 18, 2016 (KARTIKA 21, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर 2016

रक्षा (एम एस)

सं. 223, दिनांक 21 नवम्बर 2016—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 नवम्बर, 2015 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

पैदल सैना

आई सी-34019एल ले.जन. डीएस हुडा, प.वि.से.मे., उ.यु.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे.**

आई सी-31739एफ ले.जन. सीए कृष्णन, प.वि.से.मे., उ.यु.से.मे., अ.वि.से.मे. (सेवानिवृत्त) के स्थान पर

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 दिसम्बर, 2015 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

कवचित कौर

आई सी-34014एम ले.जन. अमित शर्मा, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे.

आई सी-31348डब्ल्यू ले.जन. राजन बख्शी, प.वि.से.मे., उ.यु.से.मे. (सेवानिवृत्त) के स्थान पर

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जनवरी, 2016 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :-

अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

पैदल सेना

आई सी-34098एल ले.जन. एचजेएस सचदेव, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., से.मे.

आई सी-30723के ले.जन. अशोक सिंह, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., से.मे., वि.से.मे. (सेवानिवृत्त) के स्थान पर

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 फरवरी, 2016 से निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

तोपखाना : सेना वायु रक्षा कोर

आई सी-31663एम ले.जन. राकेश नन्दन, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., से.मे.

आई सी-31633पी ले.जन. एके साहनी, प.वि.से.मे., उ.यु.से.मे., से.मे., वि.से.मे. तोपखाना (जी सी) (सेवानिवृत्त) के स्थान पर

अभियांत्रिक :संकेतक

आई सी-34003ए ले.जन. एमएमएस राय, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे., अभियांत्रिक (जी सी)

आई सी-34708एम ले.जन. जी एस बिष्ट, अ.वि.से.मे., वि.से.मे., संकेतक (सेवानिवृत्त) के स्थान पर

भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 मार्च, 2016 से निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :-

अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

तोपखाना : सेना वायु रक्षा कोर

आई सी-34385पी ले.जन. एके आहुजा, प.वि.से.मे., उ.यु.से.मे., अ.वि.से.मे., से.मे., वि.से.मे. **, तोपखाना (जी सी)

आई सी-31663एम ले.जन. राकेश नंदन, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., से.मे., सेना वायु रक्षा कोर(सेवानिवृत्त) के स्थान पर

सेना सेवा कोर :सेना आयुध कोर : ईएमई

आई सी-34954एक्स ले.जन. अमित सरीन, अ.वि.से.मे., से.मे., वि.से.मे., सेना आयुध कोर

आई सी-34148एल ले.जन. आर पी राय, अ.वि.से.मे., वि.से.मे., सेना सेवा कोर (सेवानिवृत्त) के स्थान पर

रेवती रमन
अवर सचिव

सेना शाखा

एडजुटेन्ट जनरल शाखा एमपी-1

सं. 224, दिनांक 22 सितम्बर 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित को नियुक्त करते हैं :-

राष्ट्रपति का स्टाफ

जेसी-519375 डब्ल्यू सूबेदार मेजर (रिटायर्ड) अवैतनिक कैप्टन आँकार सिंह को 12 दिसम्बर 2014 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जीवनभर अवैतनिक ए.डी.सी. के रूप में।

जेसी-479183 एम सूबेदार मेजर (रिटायर्ड) भरत सिंह गुर्जर, सेना मेडल को 12 दिसम्बर 2014 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जीवनभर अवैतनिक ए.डी.सी. के रूप में।

जेसी-240813 एच रीसालदार मेजर (रिटायर्ड) और अवैतनिक कैप्टन राजेश सिंह, को 24 जून 2016 से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जीवनभर अवैतनिक ए.डी.सी. के रूप में।

बलबीर सिंह
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 225, दिनांक 23 सितम्बर 2016—थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थायी कमीशन

कमीशन की ज्येष्ठता

डी आर-10618एम ले कर्नल वी गोपालकृष्णन — 30.12.2002

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 30.06.2002 से दी जाती हैं। इसमें 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

02 अगस्त 2003 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति 05 वर्ष की अवधि के लिए सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

डी एस-12556डब्ल्यू कप्तान एनसन जोस — 13.01.2015

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 13.01.2012 से दी जाती हैं। इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

12 सितम्बर 2015 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस-12560वाई कप्तान सुरेन्द्र कुमार सेवदा — 13-01-2015

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 13-07-2011 से दी जाती हैं। (इसमें 36 माह एमडीएस की डिग्री होने तथा 06 माह अस्पताल में नियुक्ति के लिए दी गई ज्येष्ठता भी सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

12 सितम्बर 2015 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

डी एस-12591वाई कप्तान नागोरी शकीलअहमद सरदारहाजीमो— 21-01-2016

वेतन और पदोन्नती के लिए ज्येष्ठता 21-01-2013 से दी जाती है। इसमें 36 माह अवधि एमडीएस की डिग्री होने से संबंधित ज्येष्ठता सम्मिलित है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

11 जून 2016 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका संबंध उपयुक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अधीन और रक्षा मंत्रालय के पत्र सं 10(3)(प)/05/डी मेड, 28 अक्टूबर 2005 यथासंशोधित के अधीन राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति 05 वर्ष के लिए करते हैं:

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(अल्पकालीन) कमीशन
कैप्टन के पद पर (परख पर)

निजी संख्या	रैंक व नाम	कमीशन की तिथि
डी एस-12606डब्लू	कप्तान उमेश कुमार	05-04-2016
डी एस-12607वाई	कप्तान बिबिन जो डेविस टी जे	05-04-2016
डी एस-12608एफ	कप्तान (सुश्री) ईशा रानी	05-04-2016
डी एस-12609के	कप्तान (सुश्री) रोमा कोटिया	05-04-2016
डी एस-12610वाई	कप्तान रत्नेश यादव	05-04-2016
डी एस-12611एफ	कप्तान शिंदे तुषार शांताराम	05-04-2016
डी एस-12612के	कप्तान वसन्था नारायणन आर	05-04-2016
डी एस-12613एम	कप्तान (सुश्री) अलिशा ठाकुर	09-05-2016

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 226, दिनांक 26 सितम्बर 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित पद सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

नियमित सेना
(अल्प सेवा आयोग)
लै. के पद पर

निम्नलिखित दो अधिकारी, जो अल्पकालीन सेवा आयोग-13 पाठ्यक्रम के हैं, को सेनानुदेश 1/एस/92 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/ डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढ़ा जाए) लै0 के पद पर उनको सम्मुख अंकित तिथि से पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए लो कि आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत है अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 14 मार्च 2015 से 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 16 मार्च 2014 से विशेष सेनानुदेश 10/96 (सूची पत्र संख्या 9 दिनांक 01 जून 1996) के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्नति के लिये दी जाती है:-

अर्पिता द्विवेदी (एस एस-47967 एन) ई एम ई (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि-07 अप्रैल 14) की वरिष्ठता रमनदीप कौर (एस एस-47958एम) ई एम ई के नीचे, सोनिया सिंह(एस एस-47980 एक्स) ए एस सी (अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि-07 अप्रैल 14) की वरिष्ठता नवनीत संधू (एस एस-47975एम) सिग्नलस के नीचे।

निम्नलिखित आठ अधिकारी, जो अल्पकालीन सेवा आयोग (टैक)-42 पाठ्यक्रम के हैं, लैफ्टिनेट के पद पर पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत हैं को उनके सम्मुख अंकित तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 14 मार्च 2015 से सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढा जाए) 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 16 मार्च 2014 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्नति के लिये दी जाती है: -

भरत वत्स (एस एस-47948 एच) आर्टी (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-07 अप्रैल 14) की वरिष्ठता गोतमजी कानदरू (एस एस-47950 ए) इन्फैन्ट्री के उपर, सोरव सिंगला (एस एस-47957 के) सिग्नलस (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-07 अप्रैल 14) की वरिष्ठता सिबीन थोमस (एस एस-47956 एफ) इंजिनियर्स के नीचे, मनजोत सिंह (एस एस-47963 एक्स) एस एस सी (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-07 अप्रैल 14) की वरिष्ठता नायर राहुल शशिधरन (एस एस-47962 पी) आर्टी के उपर, आशीष सिंह चौहान (एस एस-47976 पी) इंजिनियर्स (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-07 अप्रैल 14) की वरिष्ठता आदित्य प्रताप सिंह (एस एस-47974 के) सिग्नलस के नीचे, गौरव कुमार दास (एस एस-47977 एक्स) इन्फैन्ट्री (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-07 अप्रैल 14) की वरिष्ठता जगतारन सिंह (एस एस-47978 ए) इन्ट के नीचे, शेख अब्दुल्ला (एस एस-47987 एफ) आर्टी (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-07 अप्रैल 14) की वरिष्ठता अरुण के एच (एस एस-47985 डब्ल्यू) के नीचे, योगेश कुमार (एस एस-47998 एन) इंजिनियर्स (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-07 अप्रैल 14) की वरिष्ठता अमन कौशिक (एस एस-48000 एक्स) ए ओ सी के उपर, लंका सीवा नागा श्रीकांत (एस एस-48006 वाई) ए ए डी (अल्पकालीन सेवा आयोग परखाधीन तिथि-07 अप्रैल 14) की वरिष्ठता जी बालकीर्ती (एस एस-48004 एन) ई एम ई के नीचे।

निम्नलिखित 62 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग (टैक)-43 पाठ्यक्रम के हैं, लैफ्टिनेट के पद पर पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए जो आफिसर प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में प्रशिक्षणरत हैं को उनके सम्मुख अंकित तिथि से अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही उनको दिनांक 12 सितम्बर 2015 से सेनानुदेश 1/93 के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत (जो कि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पी सी/ए जी/पी एस-2(ए) 921/डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढा जाए) 10 वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 14 सितम्बर 2014 से विशेष सेनानुदेश 1/एस/94, यथा संशोधित, के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु एक वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रन्नति के लिये दी जाती है: -

एस एस न0	नाम	आर्म / सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस-48313	डब्ल्यू	अंकुश कुमार शर्मा	सिग्नलस
एस एस-48316	के	शुक्ला अजयकुमार शेषनारायण	इंजिनियर्स
एस एस-48317	एम	सचिन सिंह	इंजिनियर्स
एस एस-48319	एक्स	अनिल कुमार ढांडा	ई एम ई
एस एस-48322	एक्स	राजकुमार	इन्फैन्ट्री
एस एस-48323	ए	हर्षित मल्होत्रा	एविशन
एस एस-48327	डब्ल्यू	अरुण एम	आर्टी
एस एस-48328	वाई	आदर्श रामा भट्ट	ई एम ई
एस एस-48329	एफ	मनमोहन सिंह चौहान	ई एम ई
एस एस-48330	डब्ल्यू	नितेश पवाडिया	इन्फैन्ट्री
एस एस-48331	वाई	निशान्त डेविड जॉय	ई एम ई
एस एस-48334	एम	कार्तिक कुमार एस	इन्फैन्ट्री
एस एस-48335	पी	प्रिन्स त्यागी	ई एम ई
एस एस-48338	एच	मोहम्मद मोहसिन खान कादरी	इन्फैन्ट्री
एस एस-48341	एच	सुमित डोगरा	इंजिनियर्स
एस एस-48345	वाई	धवल सचदेवा	ए एस सी
एस एस-48349	पी	शशिकान्त हेडगी	इंजिनियर्स

एस एस न0		नाम	आर्म / सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस—48350	के	अभिनय यादव	इन्फैन्ट्री	07 अक्टूबर 14
एस एस—48351	एम	अरुण कुमार	ए ओ सी	07 अक्टूबर 14
एस एस—48352	पी	पुष्कर मल्होत्रा	ई एम ई	07 अक्टूबर 14
एस एस—48353	एक्स	प्रभजित सिंह ओबरॉय	मैक	07 अक्टूबर 14
एस एस—48356	एल	विवेक कुमार यादव	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 14
एस एस—48357	एन	तुषार मिश्रा	आर्टी	07 अक्टूबर 14
एस एस—48361	डब्ल्यू	प्रदीप शर्मा	इन्फैन्ट्री	07 अक्टूबर 14
एस एस—48362	वाई	एस मनो विजय	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 14
एस एस—48363	एफ	इरेन्गबाम विशाल मीतेइ	इन्फैन्ट्री	07 अक्टूबर 14
एस एस—48364	के	मनीष चौधरी	सिग्नलस	07 अक्टूबर 14
एस एस—48365	एम	वरुण आर आर	ई एम ई	07 अक्टूबर 14
एस एस—48366	पी	दक्षेय यादव	ई एम ई	07 अक्टूबर 14
एस एस—48367	एक्स	अंकित सारस्वत	सिग्नलस	07 अक्टूबर 14
एस एस—48368	ए	षेक गौस पाषा	मैक	07 अक्टूबर 14
एस एस—48370	एक्स	गौतम देवराज	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 14
एस एस—48371	ए	मुकुल कुमार	ए ओ सी	07 अक्टूबर 14
एस एस—48373	एल	शिवम् रावत	आर्टी	07 अक्टूबर 14
एस एस—48374	एन	पुलकित खेडा	आर्टी	07 अक्टूबर 14
एस एस—48375	डब्ल्यू	पकंज कुमार सिंह	ई एम ई	07 अक्टूबर 14
एस एस—48377	एफ	चंद्र शेखर चौधरी	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 14
एस एस—48379	एम	ऋषभ ठाकुर	आर्टी	07 अक्टूबर 14
एस एस—48381	के	हेज भाई	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 14
एस एस—48383	पी	दीपक यादव	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 14
एस एस—48386	एच	विनोद कुमार अे	आर्टी	07 अक्टूबर 14
एस एस—48390	एल	शोभित चौधरी	इंजिनियर्स	07 अक्टूबर 14
एस एस—48393	वाई	प्रशांत जाजि	ई एम ई	07 अक्टूबर 14
एस एस—48397	पी	दीपरंजन यादव	आर्टी	07 अक्टूबर 14
एस एस—48398	एक्स	केडीया जयदीप	ई एम ई	10 अक्टूबर 14
एस एस—48401	एम	नवजोत सिंह धालीवाल	इन्फैन्ट्री	07 अक्टूबर 14
एस एस—48406	एल	राहुल ए	इंजिनियर्स	07 अप्रैल 14
एस एस—48408	डब्ल्यू	राजशेखर पी	आर्टी	07 अक्टूबर 14
एस एस—48410	एन	आलोक आनंद	इन्फैन्ट्री	07 अक्टूबर 14
एस एस—48411	डब्ल्यू	पल्लव वैशंपायन	एविशन	07 अक्टूबर 14
एस एस—48414	के	करियप्पा पि पि	ए सी	07 अक्टूबर 14

एस एस न0	नाम	आर्म / सर्विस	अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि
एस एस—48416	पी	अरुलमोलिवर्मन मा	ए एस सी
एस एस—48417	एक्स	सिद्धार्थ रॉय	इन्फैन्ट्री
एस एस—48418	ए	अभिषेक एस पाटिल	एविशन
एस एस—48420	एक्स	अभिषेक चौहान	इन्फैन्ट्री
एस एस—48423	एल	राहुल मिश्रा	ई एम ई
एस एस—48424	एन	शन्मुख कुमार	ई एम ई
एस एस—48425	डब्ल्यू	दीपांशु फर्त्याल	ई एम ई
एस एस—48426	वाई	नमन लखोटिया	सिग्नलस
एस एस—48428	के	सनत ए	ई एम ई
एस एस—48429	एम	अविनाश अनंत	इंजिनियर्स
एस एस—48431	के	अंकुर आदित्य	इन्फैन्ट्री

निम्नलिखित 80 जेन्टलमैन कैडेट्स, जो अल्पकालीन सेवा आयोग (एन टी)—100 पाठ्यक्रम के हैं, ने छः मास का समय जो कि 12 सितम्बर 2015 को शुरू हुआ था, लै0 के पद पर पूरा कर लिया है। उनको उसी दिनांक 12 सितम्बर 2015 से 10 वर्ष के लिय लै0 के पद पर अल्पकालीन सेवा आयोग विशेष सेनानुदेश 3/एस/98, यथा संशोधित, के अन्तर्गत (जोकि भारत सरकार के पत्र संख्या बी/32313/पीसी/ए जी/पी एस-2(ए)डी (ए जी) दिनांक 20 जुलाई 2006 के साथ पढा जाए) प्रदान किया जाता है : —

एस एस न0	नाम	आर्म / सर्विस
एस एस—48168	के	विश्वराज सिंह
एस एस—48170	एफ	रवि कुमार
एस एस—48172	एम	निखिल पंडिता
एस एस—48173	पी	सुमित धीमान
एस एस—48174	एक्स	तेजेन्द्र सिंह चौधरी
एस एस—48175	ए	श्रीवत्सा वी
एस एस—48176	एच	संग्राम सिंह चुण्डावत
एस एस—48177	एल	जयंतन एम
एस एस—48180	एल	सिमरन सिंह
एस एस—48185	के	अमित राणा
एस एस—48186	एम	उदयवीर सिंह गुरोन
एस एस—48191	एक्स	अभिनय चौधरी
एस एस—48193	एच	हर्ष दलाल
एस एस—48194	एल	श्री हर्षा सि एच
एस एस—48195	एन	विनित होरा
एस एस—48198	एफ	सन्दीप पी सी
एस एस—48201	डब्ल्यू	जसबीर सिंह
एस एस—48202	वाई	कार्तिक के पुजारी
एस एस—48203	एफ	दिलीप चिरोम

एस एस न0		नाम	आर्म / सर्विस
एस एस—48204	के	अकिंत शर्मा	मैक
एस एस—48212	एच	डेविड सिरिल बाबू	ए एस सी
एस एस—48214	एन	एम वेंकटा श्याम कल्याण	ए एस सी
एस एस—48218	के	राकेश रोशन	आर्टी
एस एस—48219	एम	महेश कडियाला	आर्टी
एस एस—48220	एफ	अतुल आन्नद	इन्फैन्ट्री
एस एस—48221	के	प्रभाकर देव सिंह	इन्फैन्ट्री
एस एस—48223	पी	अखिलेश कुमार सिंह	सिग्नलस
एस एस—48225	ए	कोमल कृष्णा अग्रवाल	ए ए डी
एस एस—48227	एल	तखेलमयुम नेपोलियन	इन्फैन्ट्री
एस एस—48230	एल	शैलेन्द्र सिंह गिल	ए ए डी
एस एस—48231	एन	नवराज सिंह साही	ए सी
एस एस—48232	डब्ल्यू	तारा प्रसाद पुन	इन्फैन्ट्री
एस एस—48233	वाई	दिवाडकर प्रथमेश नितीन	आर्टी
एस एस—48234	एफ	गंधर्व तिवारी	ए सी
एस एस—48235	के	अविनाश पाण्डेय	ए ओ सी
एस एस—48236	एम	शिशिर कुमार झा	इन्फैन्ट्री
एस एस—48237	पी	सव्यसाची साठे	इन्फैन्ट्री
एस एस—48238	एक्स	संदेश सिंह	आर्टी
एस एस—48240	पी	हरेन्द्र कुमार	इन्फैन्ट्री
एस एस—48241	एक्स	एन नोंगलेम्बा एम	ए सी
एस एस—48242	ए	सिमरजीत सिंह बराड	आर्टी
एस एस—48243	एच	अभिषेक कुमार	आर्टी
एस एस—48248	एफ	अंकित नौडियाल	जैग
एस एस—48250	वाई	उत्कर्ष चहर	इन्फैन्ट्री
एस एस—48252	के	विवेक सिंह यादव	आर्टी
एस एस—48254	पी	अंकुर सिन्हा	आर्टी
एस एस—48256	ए	शशांक दुबे	ए ए डी
एस एस—48257	एच	अनीष अहलावत	इन्फैन्ट्री
एस एस—48258	एल	सूरज शर्मा	एविशन
एस एस—48261	एल	हरीश कौशिक	ए ए डी
एस एस—48262	एन	शेख कमाल अहमद मुश्ताख	आर्टी
एस एस—48263	डब्ल्यू	जीमी लालरिनफेला	सिग्नलस
एस एस—48264	वाई	कैलाश शिनगारे	ए ओ सी
एस एस—48265	एफ	जी सविता दरन	इन्फैन्ट्री

एस एस न०		नाम	आर्म/सर्विस
एस एस-48266	के	अजय सिंह भुल्लर	आर्टी
एस एस-48268	पी	विकास एम वी	इन्फैन्ट्री
एस एस-48269	एक्स	आदित्य श्रीनिवासन	इन्फैन्ट्री
एस एस-48270	एम	अंकुर अहलावत	ए एस सी
एस एस-48277	डब्ल्यू	अनस अहमद	जैग
एस एस-48280	डब्ल्यू	शिखर टंडन	एविशन
एस एस-48281	वाई	सिद्धार्थ सिन्हा	इन्फैन्ट्री
एस एस-48283	के	विवेक पिल्ले	इन्फैन्ट्री
एस एस-48284	एम	अनुराग के	आर्टी
एस एस-48285	पी	अमनजीत सिंह संधू	ए सी
एस एस-48288	एच	राघव शर्मा	ए ओ सी
एस एस-48289	एल	अभिषेक शर्मा	जैग
एस एस-48291	एच	शेष्टी भूषण रमेश	इंजिनियर्स
एस एस-48292	एल	शुभम बागेवाडी	इन्ट
एस एस-48294	डब्ल्यू	रितेश वर्मा	आर्टी
एस एस-48295	वाई	कूडारी सैम्यूल हैम्सन	एविशन
एस एस-48297	के	कँवरपाल सिंह	इन्फैन्ट्री
एस एस-48299	पी	श्रीराला मुकेश	ए ए डी
एस एस-48301	एफ	सर्नवा कुंडू	ए एस सी
एस एस-48302	के	यादव अपूर्व अनिलप्रकाश	मैक
एस एस-48304	पी	अनुपम सिन्हा	मैक
एस एस-48305	एक्स	विवेक कुमार	इन्फैन्ट्री
एस एस-48308	एल	सीटू यादव	आर्टी
एस एस-48310	एच	सुब्रान्ध सिंह	इंजिनियर्स
एस एस-48311	एल	सुखजिन्दर सिंह	आर्टी
एस एस-48312	एन	सुमित कुमार दाश	इन्फैन्ट्री

अभिषेक तिवारी
मेजर
ए एम एस 8बी

सेना शाखा

सं. 227, दिनांक 27 सितम्बर 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लै0 के रैंक में

गौरव नेगी	(टीए-43001)	(इन्फैन्ट्री)	23 दिसम्बर 2015
आकाश यादव	(टीए-43002)	(इन्फैन्ट्री)	09 जनवरी 2016
अनुराग श्रीवास्तव	(टीए-43004)	(इन्फैन्ट्री)	24 जनवरी 2016
अमित कुमार शर्मा	(टीए-43005)	(इन्फैन्ट्री)	01 मार्च 2016

कर्ण सिंह संधु	(टीए-43006)	(इन्फैन्ट्री)	01 मार्च 2016
राहिल अत्री	(टीए-43007)	(इन्फैन्ट्री)	01 मार्च 2016
मनुज भारद्वाज	(टीए-43008)	(इन्फैन्ट्री)	02 मार्च 2016

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

सेना शाखा

स. 228, दिनांक 28 सितम्बर 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर

वानखड़े तानाजी सिताराम (एमआर-08744-ए), एएमसी	-	19 अप्रैल 2016
रविन्दर कुमार (एमआर-08743-एक्स), एएमसी	-	12 जुलाई 2015
मनिष कुमार (एमआर-08939-एल), एएमसी	-	21 अप्रैल 2014
अनुपम साहु (एमआर-08437-एच), एएमसी	-	19 दिसम्बर 2013
एन्दापल्ली श्रीनिवास राजेश (एमआर-07975-के), एएमसी	-	18 जुलाई 2015
अंशुल गुप्ता (एमआर-07736-पी), एएमसी	-	04 मार्च 2014
हरीश चन्द्र जोशी (एमआर-08784-एफ), एएमसी	-	19 अप्रैल 2016
स्वीन सिवरैन (एमआर-08892-एल), एएमसी	-	12 अप्रैल 2016
हरनीत कौर ढिंढसा (एमआर-08808-ए), एएमसी	-	17 मई 2016
मोरे विजय कुमार कृष्णा, एस एम् (एमआर-08703-डब्लू), एएमसी	-	17 मई 2016
विवेक कुमार (एमआर-08758-ए), एएमसी	-	17 मई 2016
रवि कपूर (एमआर-08756-पी), एएमसी	-	17 मई 2016
अमोल नंदकुमार पटेल (एमआर-08232एन) एएमसी	-	07 मार्च 2013
राखी नेगी (एमआर-07797एम) एएमसी	-	02 अगस्त 2014
विन्धिया विशाल (एमआर-08466एक्स) एएमसी	-	08 दिसम्बर 2014
विपिन वेणुगोपाल नायर (एमआर-07860डब्लू) एएमसी	-	04 जनवरी 2015
मंदीप कौर (एमआर-07894के) एएमसी	-	04 जनवरी 2015
नीतू सिंह (एमआर-07873 एन) एएमसी	-	04 जनवरी 2015
मधम शेटी रंजित कुमार (एमआर-07906एन) एएमसी	-	04 जनवरी 2015
आशीष पांडे (एमआर-07842एन) एएमसी	-	04 जनवरी 2015
अनीश मोहिमन (एमआर-07848पी) एएमसी	-	04 जनवरी 2015

सिद्धार्थ शुक्ला (एमआर-07855एल) एएमसी	-	04 जनवरी 2015
सुप्रीता कालरा (एमआर-07854हेच) एएमसी	-	04 जनवरी 2015
ज्योति कुमार सिन्हा (एमआर-07913के) एएमसी	-	04 जनवरी 2015
शिलका दुआ (एमआर-08036-एन) एएमसी	-	30 दिसम्बर 2015
रितिक चक्रवर्ती (एमआर-08037-डब्लू) एएमसी	-	02 जनवरी 2016
कविता सिन्हा (एमआर-08623-वाई) एएमसी	-	11 जनवरी 2016

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

अवधेष ओली (एमआर-08016-ए) (एफ-27645-एन)	-	30 दिसम्बर 2015
पंकज राय (एमआर-08065-एच) (एफ-27647-एस)	-	30 दिसम्बर 2015
चन्द्राजीत चट्टोपाध्याय (एमआर-08513-के) (एफ-27654-एल)	-	27 जुलाई 2015
बासवराजा (एमआर-08779-डब्लू) (एफ-27655-आर)	-	27 जुलाई 2015
भेन्डीगिरी शिरीष रमेश (एमआर-9075-वाई) (एफ-28869-टी)	-	22 सितम्बर 2015
ताकियो तेयी (एमआर-08702-एन) (एफ-28375-एन)	-	12 अक्टूबर 2015

आर के रान्याल
एयर वाइस मार्शल
अपर महानिदेशक स से चि से (मा.स.)
कार्यालय महानिदेशक स से चि से

थलसेना विभाग

सं. 229, दिनांक 29 सितम्बर 2016—थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थाई कमीशन)

सर्जन कमाण्डर से सर्जन कैप्टन (टी एस) के पद पर

डी आर—10443पी (79041—एन)	सर्जन कमाण्डर	नियामथुल्ला अजीजुदीन	22—05—2016
-----------------------------	---------------	----------------------	------------

थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थाई कमीशन)

स्क्वार्डन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

डी आर—10581डब्लू (एफ—32045एल)	स्क्वार्डन लीडर	पीटर देवदास	17—06—2013
डी आर—10574ए (एफ—30365जी)	स्क्वार्डन लीडर	शशीधरन एम पी	25—08—2013

डी आर-10605पी (ए एफ- 30039बी)	मेजर	रत्नदीप सिंह अहूजा	08-09-2015
----------------------------------	------	--------------------	------------

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

डी आर-10600डब्लू	मेजर	परविन्द्र शर्मा	19-08-2015
डी आर-10577एन	मेजर	राहुल राय	20-02-2016
डी आर-10578डब्लू	मेजर	रंगाराजन एच	22-03-2016
डी आर-10607ए	मेजर	प्रशान्त अवस्थी	22-03-2016
डी आर-10608एच	मेजर	नितिन गुप्ता	15-04-2016
डी आर-10610ए	मेजर	तरुण डाबरा	30-04-2016
डी आर-10611एच	मेजर	मनीष मिस्तल	30-05-2016
डी आर-10612एल	मेजर	नवीन कौल	23-06-2016

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अस्थायी कमीशन)

मेजर से ले0 कर्नल के पद पर

डी एस-12126एम	मेजर	(सुश्री) हेमा रामदास	25-03-2016
डी एस-12147एच	मेजर	शादाब अहमद	15-04-2016
डी एस-12165एल	मेजर	इन्द्रनील मुखोपाध्याय	07-06-2016
डी एस-12136डब्लू	मेजर	भानू शर्मा	11-06-2016

थलसेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:-

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

कैप्टन से मेजर के पद पर

डीआर-10702एम	कप्तान	साधना जयंत पेरूमल	24-02-15
डीआर-10703पी	कप्तान	दुष्यन्त चौहान	01-03-15
डीआर-10712डब्लू (डी एस-12379एफ)	कप्तान	रोहिन तकियार	28-02-15

डीआर-10713वाई	कप्तान	मुनीष जोशी	14-04-15
डीआर-10705ए	कप्तान	वाधवा विनय नरेन्द्र	16-09-15
डीआर-10706एच	कप्तान	मनीष राठी	23-09-15
डीआर-10736ए	कप्तान	वैभव जैन	24-02-16
डीआर-10723एच	कप्तान	पि इन्द्रनील	05-03-16
डीआर-10724एल	कप्तान	शुभम खन्ना	10-03-16
डीआर-10737एच	कप्तान	नितिश कुमार	27-03-16
डीआर-10738एल	कप्तान	(सुश्री) समरदीप कौर	28-03-16
डीआर-10739एन	कप्तान	इकबाल होसेन	07-04-16

थलसेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अर्न्तगत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से मेजर के पद पर

डी एस-12433के	कप्तान	इरफान अहमद	23-02-2016
डी एस-12435पी	कप्तान	पी आर कारतिकेयन	24-02-2016
डी एस-12437ए	कप्तान	कौशल कुमार सारस्वत	01-03-2016
डी एस-12440ए	कप्तान	(सुश्री) करिश्मा किरन	07-03-2016
डी एस-12449पी	कप्तान	(सुश्री) दबश्री कुण्डू	23-03-2016
डी एस-12446एफ	कप्तान	(सुश्री) अश्वथी आर	18-05-2016
डी एस-12448एम	कप्तान	(सुश्री) शिल्पा नायडू	08-06-2016

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

सं. 230, दिनांक 30 सितम्बर 2016—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारि को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन आनन्द किशोर तिवारी	टीए-42673	(इन्जीनियर टीए)	16 जनवरी 2015
कैप्टन करण सिंह त्यागी	टीए-42680	(इन्जीनियर टीए)	02 मार्च 2015

कैप्टन के रैंक में

लै० मनीश कुमार द्विवेदी	टीए-42844	(इन्जीनियर टीए)	27 फरवरी 16
लै० शीतल कुमार महेन्द्र	टीए-42845	(इन्जीनियर टीए)	27 फरवरी 16
लै० अभिजित दात्तात्रया भोयर	टीए-42847	(इन्जीनियर टीए)	27 फरवरी 16

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 231, दिनांक 3 अक्टूबर 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त चिकित्सा कोर के अधिकारियों को दिनांक 29 दिसम्बर 2015 से अल्पस्थायी कमीशन से मुक्त करते हैं तथा उसी तिथि से ही सेना दन्त चिकित्सा कोर में थलसेना अनुदेश 37/78 के अधीन स्थायी कमीशन में नियुक्त करते हैं :-

नियमित सेना

सेना दन्त चिकित्सा कोर

(स्थायी कमीशन)

अल्पकालीन कमीशन से स्थायी कमीशन में

पदनाम	निजी संख्या	स्थायी कमीशन की तिथि के साथ वरिष्ठता
मेजर अनुभव शिवपुरी	डीआर-10727वाई	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 27-14-2008 से दी जाती है ।
मेजर रवि कांत चिंताला	डीआर-10728एफ	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 17-04-2009 से दी जाती है ।
मेजर अंकुर ठकराल	डीआर-10729के	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 18-05-2009 से दी जाती है ।
मेजर (सुश्री) कीर्ति शर्मा	डीआर-10730वाई	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 09-07-2009 से दी जाती है ।
मेजर देसाई जिमिश भाविक कुमार	डीआर-10731एफ	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 16-02-2010 से दी जाती है ।
मेजर पाटील चेतन प्रल्हाद	डीआर-10732के	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 19-02-2010 से दी जाती है ।
मेजर हिमांशु ठुकराल	डीआर-10733एम	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 22-02-2010 से दी जाती है ।
मेजर कानाराम चौधरी	डीआर-10734पी	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 20-03-2010 से दी जाती है ।
कप्तान सौरभ शर्मा	डीआर-10735एक्स	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 06-05-2011 से दी जाती है ।
कप्तान वैभव जैन	डीआर-10736ए	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 24-08-2011 से दी जाती है ।
कप्तान नितिश कुमार	डीआर-10737एच	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 27-09-2011 से दी जाती है ।
कप्तान (सुश्री) समरदीप कौर	डीआर-10738एल	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 28-09-2011 से दी जाती है ।

पदनाम	निजी संख्या	स्थायी कमीशन की तिथि के साथ वरिष्ठता
कप्तान इकबाल होसेन	डीआर-10739एन	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 07-10-2011 से दी जाती है ।
कप्तान (सुश्री) रचना चौधरी	डीआर-10740एच	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 24-03-2012 से दी जाती है ।
कप्तान आशिष गोयल	डीआर-10741एल	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 23-06-2012 से दी जाती है ।
कप्तान रजत लंझारा	डीआर-10742एन	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 27-06-2012 से दी जाती है ।
कप्तान नीलाभ चौधरी	डीआर-10743डब्ल्यू	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 21-02-2010 से दी जाती है ।
कप्तान प्रसून कुमार दुबे	डीआर-10744वाई	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 06-03-2013 से दी जाती है ।
कप्तान आशिष हांडा	डीआर-10745एफ	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 17-03-2010 से दी जाती है ।
कप्तान अच्युत कुमार एम सुरपूर	डीआर-10746के	29-10-2015 परन्तु वेतन पदोन्नति तथा पेंशन के लिए वरिष्ठता 30-03-2010 से दी जाती है ।

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

थलसेना विभाग

सं. 232, दिनांक 4 अक्टूबर 2016—राष्ट्रपति थलसेना अनुदेश 37/78 के अधीन निम्नलिखित अधिकारी को थल सेना से सेवानिवृत्त करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थायी कमीशन)
सेवानिवृत्ति

डी आर-10303एच (79034वाई)	सर्जन कोमोडोर	अरुण मेहता	30-09-2014 (सायः)
डी आर-10333ए	कर्नल	एस के सिंह	31-12-2015 (सायः)

राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को उनके निजी कारणवश निवेदन पर समयपूर्व सेवानिवृत्त, उनके नाम के समक्ष लिखी तिथि से, अनुमति प्रदान करते हैं:—

नियमित सेना
सैनिक दन्त चिकित्सा कोर
(स्थायी कमीशन)
समयपूर्व सेवा निवृत्ति

डी आर-10467वाई	ले कर्नल	आर सुनील	14-03-2016 (सायः)
----------------	----------	----------	-------------------

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

थल सेना विभाग

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

सं. 233, दिनांक 12 सितम्बर 2015 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना — सैनिक दन्त चिकित्सा कोर स्थाई कमीशन उपशीर्षक ब्रिगेडियर (तथा समकक्ष) से मेजर जनरल के पद पर निम्नलिखित अधिकारी के संबंध में :-

के स्थान पर

डी आर-10339एफ	ब्रिगेडियर	एन के साहू	08-05-2015 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता 23-03-2015 से दी जाती हैं जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)
---------------	------------	------------	---

पढ़ा जाए

डी आर-10339एफ	ब्रिगेडियर	एन के साहू	08-05-2015 (परन्तु वैकल्पिक वरीयता 31-05-2014 से दी जाती हैं जोकि वेतन और भत्ते पर प्रभावी नहीं होगी)
---------------	------------	------------	---

भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक नियमित सेना — सैनिक दन्त चिकित्सा कोर अल्पकालीन कमीशन उपशीर्षक कैप्टन से मेजर के पद पर निम्नलिखित अधिकारियों के संबंध में :-

राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर 2015

के स्थान पर

डी एस-12386एक्स	मेजर चन्द्र भूषण सिंह पटेल	04-03-2015
-----------------	----------------------------	------------

पढ़ा जाए

डी एस-12386एक्स	मेजर चन्द्र भूषण सिंह पटेल	03-03-2013
-----------------	----------------------------	------------

एच एस संधू
ब्रिगेडियर
डीडीजीडीएस (पी)

सेना शाखा

स. 234, दिनांक 6 अक्टूबर 2016—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी की सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

शुद्धि पत्र

वेतन और पदोन्नति के लिये एम् आर-08939-एल मनिष कुमार दिया गया ज्येष्ठता जो की 28 अगस्त 2010 राजपत्र में प्रकाशित किया गया है इसमें 06 महीने के ज्येष्ठता वापिस ले ली गई है जिसमें निम्नलिखित संसोधन किया जाता है।

मेजर	-	के लिये	-	21 अक्टूबर 2006
		पढ़े	-	21 अप्रैल 2007

कप्तान के पद पर

मनिष कुमार	एम् एस-15245एन	एम् आर-08939-एल	ए एम् सी	21 अप्रैल 2006
वेतन और पदोन्नति के लिये वरिष्ठता 21 अप्रैल 2003 से हो जायेगी (इसमें डाक्टर ऑफ मेडिसिन (पेडियट्रिक्स) के लिये दी गयी 36 महीने की पुर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवर्ति के गिनी जायेगी परन्तु उपदान के लिये ही नहीं मानी जायेगी)				
भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर 2015 का सम्बंध जहाँ तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है				

आर के रान्याल

एयर वाइस मार्शल

अपर महानिदेशक स से चि से (मा.स.)

कार्यालय महानिदेशक स से चि से

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 12th November 2016

D(MS) SECTION

No. 223, dated the 21st September 2016—The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 November 2015: -

HONORARY ARMY ADC

INFANTRY

IC-34019L Lt Gen DS Hooda, PVSM, UYSM, AVSM, VSM**

*Vice*IC-31739F Lt Gen CA Krishnan, PVSM, UYSM, AVSM (*Retired*)

The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 December 2015: -

HONORARY ARMY ADC

ARMD

IC-34014M Lt Gen Amit Sharma, PVSM, AVSM, VSM

*Vice*IC-31348W Lt Gen Rajan Bakhshi, PVSM, UYSM (*Retired*)

The President of India has made the following appointment on his Honorary Personal Staff with effect from 01 January 2016: -

HONORARY ARMY ADC

INFANTRY

IC-34098L Lt Gen HJS Sachdev, PVSM, AVSM, SM

*Vice*IC-30723K Lt Gen Ashok Singh, PVSM, AVSM, SM, VSM (*Retired*)

The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 01 February 2016: -

HONORARY ARMY ADC

ARTY:AAD

IC-31663M Lt Gen Rakesh Nandan, PVSM, AVSM, SM, AAD

*Vice*IC-31633P Lt Gen AK Sahni, PVSM, UYSM, SM, VSM, ARTY(GC) (*Retired*)

ENGRS/SIGS

IC-34003A Lt Gen MMS Rai, PVSM, AVSM, VSM, ENGRS(GC)

*Vice*IC-34708M Lt Gen GS Bisht, AVSM, VSM, SIGS(*Retired*)

The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 01 March 2016: -

HONORARY ARMY ADC

ARTY:AAD

IC-34385P Lt Gen AK Ahuja, PVSM, UYSM, AVSM, SM, VSM**, ARTY(GC)

*Vice*IC-31663M Lt Gen Rakesh Nandan, PVSM, AVSM, SM, AAD(*Retired*)

ASC/AOC/EME

IC-34954X Lt Gen Amit Sarin, AVSM, SM, VSM, AOC

Vice

IC-34148L Lt Gen RP Rai, AVSM, VSM, ASC(*Retired*)REVATI RAMAN
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

ADJUTANT GENERAL'S BRANCH (MP 1)

No. 224, dated the 22nd September 2016— The President is pleased to made the following appointments :-

PRESIDENT'S STAFF

JC-519375W Sub Maj (Retd) & Hony Capt Onkar Singh as Honorary ADC to the President of India for life with effect from 12 Dec 2014.

JC-479183M Sub Maj (Retd) Bharat Singh Gurjar, SM as Honorary ADC to the President of India for life with effect from 12 Dec 2014.

JC-240813H Ris Maj (Retd) & Hony Capt Rajesh Singh, as Honorary ADC to the President of India for life with effect from 24 Jun 2016.

BALBIR SINGH
Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 225, dated the 23rd September 2016—The President is pleased to make the following appointment under AI 37/78 as amended:-REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(PERMANENT SERVICE COMMISSION)

ANTEDATE OF COMMISSION

DR-10618M Lt Col V Gopalakrishnan - 30-12-2002

with seniority for pay and promotion from 30-06-2002 (includes 06 months antedate for holding appointment as Junior Resident in Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry for the period from 08 Mar 2002 to 27 Dec 2002, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 02 Aug 2003, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

The President is pleased to make the following appointment under AI 15/79 as amended:-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(SHORT SERVICE COMMISSION)

TO BE CAPTAIN (ON PROBATION)

(Antedate of Commission)

DS-12556W Capt Anson Jose - 13-01-2015

with seniority for pay and promotion from 13-01-2012 (36 months antedate for acquiring MDS Degree All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 12 Sep 2015, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12560Y Capt Surendra Kumar Sewda - 13-01-2015

with seniority for pay and promotion from 13-07-2011 (includes 42 months antedate, 36 months antedate for acquiring MDS Degree from Postgraduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh and 06 months for holding hospital appointment as a Lecturer in NIMS Dental College, Rajasthan from 01 Jan 2010 to 20 Jul 2010, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 12 Sep 2015, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

DS-12591Y Capt Shakil Ahmed Sardar Haji Mohd Nagori - 21 Jan 2016

with seniority for pay and promotion from 21-01-2013 (36 months antedate for acquiring MDS Degree from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, which will not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published on the Gazette of India dated 11 Jun 2016, pertaining to the Officer is hereby cancelled.

The President is pleased to make the following appointment for a period of 05 years under 15/79, as amended and GOI MOD letter Nos.10 (3)(1)/05/D(Med) dated 28 Oct 05 as amended:-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION
TO BE CAPTAIN (ON PROBATION)

Pers No	Rank & Name	Dt of Commission
DS-12606W	Capt Umesh Kumar	05-04-2016
DS-12607Y	Capt Bibin Jeo Davis T J	05-04-2016
DS-12608F	Capt (Ms) Isha Rani	05-04-2016
DS-12609K	Capt (Ms) Roma Kotia	05-04-2016
DS-12610Y	Capt Ratnesh Yadav	05-04-2016
DS-12611F	Capt Shinde Tushar Shantaram	05-04-2016
DS-12612K	Capt Vasantha Narayanan R	05-04-2016
DS-12613M	Capt (Ms) Alisha Thakur	09-05-2016

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

(ARMY BRANCH)

No. 226, dated the 26th September 2016—The President is pleased to make the following appointments :-

REGULAR ARMY
(SHORT SERVICE COMMISSION)
TO BE LT

The under-mentioned two officers of SSCW(Tech)-13 Course was granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against her name in the rank of Lt under the provision of SAI 1/S/92, as amended read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Women-Tech). Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission have been confirmed for a period of 10 years wef 14 Mar 2015. They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 16 Mar 2014 under the provisions of AI 10/96 (Corrigendum No 9 dated 01 Jun 96 to SAI 1/S/92) :-

ARPITA DWIVEDI (SS-47967N) EME (date of SSC on probation-07 Apr 14) with the seniority below RAMANDEEP KAUR (SS-47958M) EME, SONIA SINGH (SS-47980X) ASC (date of SSC on probation-07 Apr 14) with the seniority below NAVNEET SANDHU (SS-47975M) SIGS.

The under mentioned eight officers of SSC (Tech)-42 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name. Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of 10 years wef 14 Mar 2015, under the provisions of AI 1/93, as amended read

in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Men-Tech). They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 16 Mar 2014 under SAI 1/S/94 as amended:-

BHARAT VATS (SS-47948H) ARTY (date of SSC on probation-07 Apr 14) with the seniority above GOTAMJI KANDROO (SS-47950A) INF, SORAV SINGLA (SS-47957K) SIGS (date of SSC on probation-07 Apr 14) with the seniority below SIBIN THOMAS (SS-47956F) ENGRS, MANJOT SINGH (SS-47963X) ASC (date of SSC on probation-07 Apr 14) with the seniority above NAIR RAHUL SASIDHARAN (SS-47962P) ARTY, ASHISH SINGH CHAUHAN (SS-47976P) ENGRS (date of SSC on probation-07 Apr 14) with the seniority below ADITYA PRATAP SINGH (SS-47974K) SIGS, GOURAV KUMAR DAS (SS-47977X) INF (date of SSC on probation-07 Apr 14) with the seniority above JAGTARAN SINGH (SS-47978A) INT, SHAIK ABDULLA (SS-47987F) ARTY (date of SSC on probation-07 Apr 14) with the seniority below ARUN K H (SS-47985W) ENGRS, YOGESH KUMAR (SS-47998N) ENGRS (date of SSC on probation-07 Apr 14) with the seniority above AMAN KAUSHIK (SS-48000X) AOC, LANKA SHIVA NAGA SRIKANTH (SS-48006Y) AAD (date of SSC on probation-07 Apr 14) with the seniority below G BALAKEERTHI (SS-48004N) EME.

The under mentioned 62 officers of SSC (Tech)-43 Course were granted Short Service Commission (on probation) for the period of their pre-commissioning training at the Officer Training Academy, Chennai in the rank of Lt wef the date shown against their name. Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission have been confirmed for a period of 10 years wef 12 Sep 2015, under the provisions of AI 1/93, as amended read in conjunction with GoI Letter No B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dt 20 Jul 06 for SSCOs(Men-Tech). They have also been granted one year ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 14 Sep 2014 under SAI 1/S/94 as amended: -

SS No	Name	Arm/ Service	On Probation
SS-48313W	ANKUSH KUMAR SHARMA	SIGS	07-Oct-14
SS-48316K	SHUKLA AJAYKUMAR SHESHNARAYAN	ENGRS	07-Oct-14
SS-48317M	SACHIN SINGH	ENGRS	07-Oct-14
SS-48319X	ANIL KUMAR DHANDA	EME	07-Oct-14
SS-48322X	RAJKUMAR	INF	07-Apr-14
SS-48323A	HARSHIT MALHOTRA	AVN	07-Oct-14
SS-48327W	ARUN M	ARTY	07-Oct-14
SS-48328Y	ADARASH RAMA BHAT	EME	07-Oct-14
SS-48329F	MANMOHAN SINGH CHAUHAN	EME	07-Oct-14
SS-48330W	NITESH PAWADIA	INF	07-Oct-14
SS-48331Y	NISHANT DAVID JOY	EME	07-Oct-14
SS-48334M	KARTHIK KUMAR S	INF	07-Oct-14
SS-48335P	PRINCE TYAGI	EME	07-Oct-14
SS-48338H	MOHAMMAD MOHSIN KHAN QUADRI	INF	07-Apr-14
SS-48341H	SUMEET DOGRA	ENGRS	07-Oct-14
SS-48345Y	DHAVAL SACHDEVA	ASC	07-Oct-14
SS-48349P	SHASHIKANT HEDAGI	ENGRS	07-Apr-14
SS-48350K	ABHINAY YADAV	INF	07-Oct-14
SS-48351M	ARUN KUMAR	AOC	07-Oct-14
SS-48352P	PUSHKAR MALHOTRA	EME	07-Oct-14
SS-48353X	PRABHJIT SINGH OBEROI	MECH	07-Oct-14
SS-48356L	VIVEK KUMAR YADAV	ENGRS	07-Oct-14

SS No	Name	Arm/ Service	On Probation
SS-48357N	TUSHAR MISRA	ARTY	07-Oct-14
SS-48361W	PARDEEP SHARMA	INF	07-Oct-14
SS-48362Y	S MANO VIJAY	ENGRS	07-Oct-14
SS-48363F	IRENGBAM VISHAL MEETEI	INF	07-Oct-14
SS-48364K	MANISH CHOUDHARY	SIGS	07-Oct-14
SS-48365M	VARUN RR	EME	07-Oct-14
SS-48366P	DAKSHESH YADAV	EME	07-Oct-14
SS-48367X	ANKIT SARASWAT	SIGS	07-Oct-14
SS-48368A	SHAIK GHOUSE PASHA	MECH	07-Oct-14
SS-48370X	GOUTHAM DEVRAJ S	ENGRS	07-Oct-14
SS-48371A	MUKUL KUMAR	AOC	07-Oct-14
SS-48373L	SHIVAM RAWAT	ARTY	07-Oct-14
SS-48374N	PULKIT KHERA	ARTY	07-Oct-14
SS-48375W	PANKAJ KUMAR SINGH	EME	07-Oct-14
SS-48377F	CHANDRA SHEKHAR CHOUDHARY	ENGRS	07-Oct-14
SS-48379M	RISHABH THAKUR	ARTY	07-Oct-14
SS-48381K	HAGE BHAI	ENGRS	07-Oct-14
SS-48383P	DEEPAK YADAV	ENGRS	07-Oct-14
SS-48386H	VINODH KUMAR A	ARTY	07-Oct-14
SS-48390L	SOBHIT CHAUDHARY	ENGRS	07-Oct-14
SS-48393Y	PRASHANTH JAJI	EME	07-Oct-14
SS-48397P	DEEPRANJAN YADAV	ARTY	07-Oct-14
SS-48398X	KEDIA JAIDEEP BHAGWATI PRASAD	EME	10-Oct-14
SS-48401M	NAVJOT SINGH DHALIWAL	INF	07-Oct-14
SS-48406L	RAGHUL A	ENGRS	07-Apr-14
SS-48408W	RAJASHEKAR P	ARTY	07-Oct-14
SS-48410N	ALOK ANAND	INF	07-Oct-14
SS-48411W	PALLAV VAISHAMPAYAN	AVN	07-Oct-14
SS-48414K	CARIAPPA P P	AC	07-Oct-14
SS-48416P	ARULMOZHIVARMAN M	ASC	07-Oct-14
SS-48417X	SIDDHARTH ROY	INF	07-Oct-14
SS-48418A	ABHISHEK S PATIL	AVN	07-Oct-14
SS-48420X	ABHISHEK CHAUHAN	INF	07-Oct-13
SS-48423L	RAHUL MISHRA	EME	07-Oct-14
SS-48424N	SHANMUKH KUMAR	EME	07-Oct-14
SS-48425W	DEEPANSHU PHARTYAL	EME	07-Oct-14
SS-48426Y	NAMAN LAKHOTIA	SIGS	07-Oct-14

SS No	Name	Arm/ Service	On Probation
SS-48428K	SANATH A	EME	07-Oct-14
SS-48429M	AVINASH ANANT	ENGRS	07-Oct-14
SS-48431K	ANKUR ADITYA	INF	07-Oct-14

The under mentioned 80 officers of SSC(NT)-100 Course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 12 Sep 2015. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of 10 years wef 12 Sep 2015 under the provisions of SAI 3/S/98, as amended, read in conjunction with GoI Letter no B/32313/PC/AG/PS-2(a) 921/D(AG) dated 20 Jul 06 :-

SS No	Name	Arm/ Service
SS-48168K	VISHWARAJ SINGH	INF
SS-48170F	RAVI KUMAR	SIGS
SS-48172M	NIKHIL PANDITA	ARTY
SS-48173P	SUMIT DHIMAN	INF
SS-48174X	TEJENDER SINGH CHOUDHARY	INF
SS-48175A	SHRIVATSA V	INF
SS-48176H	SANGRAM SINGH CHUNDAWAT	INF
SS-48177L	JAYANTHAN M	AAD
SS-48180L	SIMRAN SINGH	ARTY
SS-48185K	AMIT RANA	AOC
SS-48186M	UDAYVIR SINGH GURON	AC
SS-48191X	ABHINAY CHOUDHARY	ARTY
SS-48193H	HARSH DALAL	ASC
SS-48194L	SREE HARSHA C H	ARTY
SS-48195N	VINIT HORA	INF
SS-48198F	SANDEEP P C	ARTY
SS-48201W	JASBIR SINGH BISHT	ENGRS
SS-48202Y	KARTHIK K POOJARY	INF
SS-48203F	DILIP CHIROM	MECH
SS-48204K	ANKIT SHARMA	MECH
SS-48212H	NAVDEEP SINGH SANDHU	ASC
SS-48214N	M VENKATA SHYAM KALYAN	ASC
SS-48218K	RAKESH ROSHAN	ARTY
SS-48219M	MAHESH KADIYALA	ARTY
SS-48220F	ATUL ANAND	INF
SS-48221K	PRABHAKAR DEV SINGH	INF
SS-48223P	AKHILESH KUMAR SINGH	SIGS
SS-48225A	KOMAL KRISHNA AGRAWAL	AAD

SS No	Name	Arm/ Service
SS-48227L	TAKHELMAYUM NAPOLEAN	INF
SS-48230L	SHAIENDRA SINGH GILL	AAD
SS-48231N	NAVRAJ SINGH SAHI	AC
SS-48232W	TARA PRASAD PUN	INF
SS-48233Y	DIWADKAR PRATHAMESH NITIN	ARTY
SS-48234F	GANDHARVA TIWARI	AC
SS-48235K	AVINASH PANDEY	AOC
SS-48236M	SHISHIR KUMAR JHA	INF
SS-48237P	SAVYASACHI SATHE	INF
SS-48238X	SANDESH SINGH	ARTY
SS-48240P	HARENDER KUMAR	INF
SS-48241X	NINGTHOUJAM NONGLEMBANG MANGANGCHA	AC
SS-48242A	SIMARJEET SINGH BRAR	ARTY
SS-48243H	ABHISHEK KUMAR	ARTY
SS-48248F	ANKIT NAUDIYAL	JAG
SS-48250Y	UTKARSH CHAHAR	INF
SS-48252K	VIVEK SINGH YADAV	ARTY
SS-48254P	ANKUR SINHA	ARTY
SS-48256A	SHASHANK DUBEY	AAD
SS-48257H	ANISH AHLAWAT	INF
SS-48258L	SURAJ SHARMA	AVN
SS-48261L	HARISH KAUSHIK	AAD
SS-48262N	SHAIKH KAMAALAHMED MUSHTAQUE	ARTY
SS-48263W	JIMMY LALRINFELA	SIGS
SS-48264Y	KAILASH SHINGARE	AOC
SS-48265F	G SAKTHI DARAN	INF
SS-48266K	AJAY SINGH BHULLAR	ARTY
SS-48268P	VIKAS M V	INF
SS-48269X	ADITYA SRINIVASAN	INF
SS-48270M	ANKUR AHLAWAT	ASC
SS-48277W	ANAS AHMED	JAG
SS-48280W	SHIKHAR TANDON	AVN
SS-48281Y	SIDDHARTH SINHA	INF
SS-48283K	VIVEK JUDE XAVIER PILLAI	INF
SS-48284M	ANURAG K	ARTY
SS-48285P	AMANJEET SINGH SANDHU	AC
SS-48288H	RAGHAV SHARMA	AOC

SS No	Name	Arm/ Service
SS-48289L	ABHISHEK SHARMA	JAG
SS-48291H	SHETTY BHUSHAN RAMESH	ENGRS
SS-48292L	SHUBHAM BAGEWADI	INT
SS-48294W	RITESH VERMA	ARTY
SS-48295Y	KUDARY SAMUEL HEMSON	AVN
SS-48297K	KANWARPAL SINGH	INF
SS-48299P	SRIRALA MUKESH	AAD
SS-48301F	SARNAVA KUNDU	ASC
SS-48302K	YADAV APOORV ANILPRAKASH	MECH
SS-48304P	ANUPAM SINHA	MECH
SS-48305X	VIVEK KUMAR	INF
SS-48308L	SITU YADAV	ARTY
SS-48310H	SUBHRANS SINGH	ENGRS
SS-48311L	SUKHJINDER SINGH	ARTY
SS-48312N	SUMIT KUMAR DASH	INF

ABHISHEK TEWARY
Maj
AMS 8B

ARMY BRANCH

No. 227, dated the 27th September 2016—The President is pleased to make the following appointments :-

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

TO BE LT

Gaurav Negi	TA-43001	(Infantry)	23 Dec 2015.
Akash Yadav	TA-43002	(Infantry)	09 Jan 2016.
Anurag Shrivastava	TA-43004	(Infantry)	24 Jan 2016.
Amit Kumar Sharma	TA-43005	(Infantry)	01 Mar 2016.
Karan Singh Sandhu	TA-43006	(Infantry)	01 Mar 2016.
Rahil Atri	TA-43007	(Infantry)	01 Mar 2016.
Manuj Bhardwaj	TA-43008	(Infantry)	02 Mar 2016.

M. P. SINGH
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 228, dated the 28th September 2016—The president is pleased to make the promotion of the under mentioned AMC officer with effect from the date mentioned against his name:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

MAJOR TO BE LT COL

Wankede Tanaji Sitaram (MR-08744-A), AMC	-	19 Apr 2016
Ravinder Kumar (MR-08743-X), AMC	-	12 Oct 2015
Manish Kumar (MR-08939L), AMC	-	21 Apr 2014

Anupam Sahu (MR-08437-H), AMC	-	19 Dec 2013
Yendapalli Srinivas Rajesh (MR-07975-K), AMC	-	18 Jul 2015
Anshul Gupta (MR-07736-P), AMC	-	04 Mar 2014
Harish Chandra Joshi (MR-08784-F), AMC	-	19 Apr 2016
Sween Sheoran (MR-08892-L), AMC	-	12 Apr 2016
Harneet Kaur Dhindsa (MR-08808-A), AMC	-	17 May 2016
More Vijay Kumar Krishna, SM (MR-08703-W), AMC	-	17 May 2016
Vivek Kumar (MR-08758-A), AMC	-	17 May 2016
Ravi Kapoor (MR-08756-P), AMC	-	17 May 2016
Amol Nandkumar Patel (MR-08232N), AMC	-	07 Mar 2013
Rakhi Negi (MR-07797M), AMC	-	02 Aug 2014
Vindhaya Vishal (MR-08466X), AMC	-	08 Dec 2014
Vipin Venugopal Nair (MR-07860W), AMC	-	04 Jan 2015
Mandeep Kaur (MR-07894K), AMC	-	04 Jan 2015
Nitu Singh (MR-07873N), AMC	-	04 Jan 2015
Madhamshetty Ranjith Kumar (MR-07906N), AMC	-	04 Jan 2015
Ashish Pande (MR-07842N), AMC	-	04 Jan 2015
Aneesh Mohimen (MR-07848P), AMC	-	04 Jan 2015
Siddharth Shukla (MR-07855L), AMC	-	04 Jan 2015
Suprita Kalra (MR-07854H), AMC	-	04 Jan 2015
Jyothi Kumar Sinha (MR-07913K), AMC	-	19 Jan 2015
Shelka Dua (MR-08036N), AMC	-	30 Dec 2015
Ritwik Chakrabarti (MR-08037W), AMC	-	02 Jan 2016
Kavita Sinha (MR-08623Y), AMC	-	11 Jan 2016
Avadhesh Oli (MR-08016-A) (AF-27645-N), AMC	-	30 Dec 2015
Pankaj Rai (MR-08065-H) (AF-27647-S), AMC	-	30 Dec 2015
Chandrajit Chattopadhyay (MR-08513K) (AF-27654-L), AMC	-	27 Jul 2015
Basavaraja (MR-08779W) (AF-27655-R), AMC	-	27 Jul 2015
Bhendigiri Shrirish Ramesh (MR-09075Y) (AF-28869-T), AMC	-	22 Sep 2015
Takiyo Teyi (MR-08702N) (AF-28375-N), AMC	-	12 Oct 2015

RK RANYAL
Air Vice Marshal
Addl DGAFMS (HR)
O/o The DGAFMS

(ARMY BRANCH)

No. 229, dated the 29th September 2016—The President is pleased to make the following promotions (PC) under AI 37/78, as amended:-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION

SURG CDR TO SURG CAPT (TS)

DR-10443P (79041-N)	Surg Cdr	Niyamathulla Azeezuddin	22-05-16
------------------------	----------	-------------------------	----------

The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78 as amended :-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION

PROMOTION FROM SQN LDR TO WG CDR

DR-10581W (AF-32045L)	Sqn Ldr	Peter Devadoss	17-06-2013
DR-10574A (AF-30365G)	Sqn Ldr	Shashidhar MP	25-08-2013
DR-10605P (AF-30039B)	Sqn Ldr	Ratandeep Singh Ahuja	08-09-15

PROMOTION FROM MAJ TO LT COL

DR-10600W	Maj	Parvinder Sharma	19-08-15
DR-10577N	Maj	Rahul Rai	20-02-16
DR-10578W	Maj	Rangarajan H	22-03-16
DR-10607A	Maj	Prashant Awasthi	22-03-16
DR-10608H	Maj	Nitin Gupta	15-04-16
DR-10610A	Maj	Tarun Dabra	30-04-16
DR-10611H	Maj	Manish Mittal	30-05-16
DR-10612L	Maj	Naveen Kaul	23-06-16

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended :-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION

PROMOTION FROM MAJ TO LT COL

DS-12126M	Maj	(Ms) Hema Ramdas	25-03-16
DS-12147H	Maj	Shadab Ahmed	15-04-16
DS-12165L	Maj	Indranil Mukhopadhyaya	07-06-16
DS-12136W	Maj	Bhanu Sharma	11-06-16

The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78 as amended:-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION

CAPT TO BE MAJOR

DR-10702M	Capt	Sadhana Jayanth Perumal	24-02-15
DR-10703P	Capt	Dushyant Chauhan	01-03-15

DR-10712W (DS-12379F)	Capt	Rohin Takkiar	28-02-15
DR-10713Y	Capt	Muneesh Joshi	14-04-15
DR-10705A	Capt	Wadhwa Vinay Narender	16-09-15
DR-10706H	Capt	Manish Rathi	23-09-15
DR-10736A	Capt	Vaibhav Jain	24-02-16
DR-10723H	Capt	Potnuru Indraneel	05-03-16
DR-10724L	Capt	Shubham Khanna	10-03-16
DR-10737H	Capt	Nitish Kumar	27-03-16
DR-10738L	Capt	(Ms) Summerdeep Kaur	28-03-16
DR-10739N	Capt	Ikbali Hossain	07-04-16

The President is pleased to make the following promotion under AI 15/79 as amended:-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
SHORT SERVICE COMMISSION

CAPT TO BE MAJOR

DS-12433K	Capt	Irfan Ahmad	23-02-16
DS-12435P	Capt	PR Karthikeyan	24-02-16
DS-12437A	Capt	Kaushal Kumar Saraswat	01-03-16
DS-12440A	Capt	(Ms) Karishma Kiran	07-03-16
DS-12449P	Capt	(Ms) Debshri Kundu	23-03-16
DS-12446F	Capt	(Ms) Aswathi R	18-05-16
DS-12448M	Capt	(Ms) Shilpa Nayudu	08-06-16

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 230, dated the 30th September 2016—The President is pleased to make the following promotion: -

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

TO BE MAJ

Capt Anand Kishore Tiwari	TA-42673	Engineer TA	16 Jan 2015
Capt Karan Singh Tyagi	TA-42680	Engineer TA	08 Mar 2015

TO BE CAPT

Lt Manish Kumar Diwedi	TA-42844	(Engineer TA)	27 Feb 16
Lt Sheetal Kumar Mahendra	TA-42845	(Engineer TA)	27 Feb 16
Lt Abhijit Dattatrya Bhoyar	TA-42847	(Engineer TA)	27 Feb 16

M. P. SINGH
Under Secy

(ARMY BRANCH)

No. 231, dated the 3rd October 2016—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish the Short Service commission in the Army Dental Corps wef 29 Oct 2015 and to grant them Permanent Commission in the Army Dental Corps from the same date under AI 37/78 as amended :-

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
(PERMANENT COMMISSION)

SHORT SERVICE COMMISSION TO PERMANENT COMMISSION

Rank & Name	Number	Date of PC with date of seniority
Maj Anubhav Shivpuri	DR-10727Y	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 27-04-2008.
Maj Ravi Kanth Chintala	DR-10728F	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 17-04-2009.
Capt Ankur Thakral	DR-10729K	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 18-05-2009.
Maj (Ms) Kirti Sharma	DR-10730Y	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 09-07-2009.
Sqn Ldr Desai Jimish Bhavikkumar	DR-10731F	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 16-02-2010.
Maj Patil Chetan Pralhad	DR-10732K	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 19-02-2010.
Capt Himanshu Thukral	DR-10733M	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 22-02-2010.
Maj Kanaram Choudhary	DR-10734P	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 20-03-2010.
Capt Sourabh Sharma	DR-10735X	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 06-05-2011.
Capt Vaibhav Jain	DR-10736A	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 24-08-2011.
Capt Nitish Kumar	DR-10737H	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 27-09-2011.
Capt (Ms) Summerdeep Kaur	DR-10738L	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 28-09-2011.

Rank & Name	Number	Date of PC with date of seniority
Capt Ikbāl Hossain	DR-10739N	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 07-10-2011.
Capt (Ms) Rachana Chaudhary	DR-10740H	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 24-03-2012.
Capt Ashish Goyal	DR-10741L	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 23-06-2012.
Capt Rajat Lanzara	DR-10742N	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 27-06-2012.
Capt Nilabh Choudhary	DR-10743W	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 21-02-2010.
Capt Prasun Kumar Dubey	DR-10744Y	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 06-03-2013.
Capt Ashish Handa	DR-10745F	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 17-03-2010.
Capt Achyutakumar M Surpur	DR-10746K	29-10-2015with seniority for pay, promotion and pension wef 30-03-2010.

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

(ARMY BRANCH)

No. 232, dated the 4th October 2016— The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service, w.e.f. the date shown against his name under AI 37/78.

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION

RETIREMENT

DR-10303H (79034Y)	Surg Cmde	Arun Mehta	30-09-2014 (AN)
DR-10333A	Col	SK Singh	31-12-2015 (AN)

The President is pleased to permit the undermentioned officer to prematurely retire from Army Service, w.e.f. the date shown against his name under AI 37/78:

REGULAR ARMY
ARMY DENTAL CORPS
PERMANENT COMMISSION

PREMATURE RETIREMENT

DR-10467Y	Lt Col	R Sunil	14-03-2016 (AN)
-----------	--------	---------	-----------------

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDA

New Delhi, the 5th October 2016

No. 233, dated 12th Sep 2015—In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India under the heading REGULAR ARMY- ARMY DENTAL CORPS, PERMANENT COMMISSION sub heading Brig (& Equiv) to be Maj Gen in respect of the undermentioned officer:-

FOR

DR-10339F	Brig NK Sahoo	08-05-2015 (with notional seniority 23-03-15 without effect on pay & allowances)
-----------	---------------	--

READ

DR-10339F	Brig NK Sahoo	08-05-2015 (with notional seniority 31-05-14 without effect on pay & allowances)
-----------	---------------	--

In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India, under the heading REGULAR ARMY-ARMY DENTAL CORPS, SHORT SERVICE COMMISSION sub heading Capt to be Maj in respect of the undermentioned officer:-

GN PUBLISHED ON 12 DEC 2015

FOR

DS-12386X	Maj CBS Patel	04-03-2015
-----------	---------------	------------

READ

DS-12386X	Maj CBS Patel	04-03-2013
-----------	---------------	------------

HS SANDHU
Brig
DDGDS (P)

ARMY BRANCH

No. 234, dated the 6th October 2016—The president is pleased to make the promotion of the under mentioned AMC officer with effect from the date mentioned against his name:-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

TO BE MAJ

CORRIGENDA

The date of seniority for pay and promotion, consequent to withdrawal of 06 months ante date seniority, in respect of MR-08939-L Maj Manish Kumar published in Govt of India Gazette date 28 Aug 2010 is amended as follows.

Maj	-	For	-	21 Oct 2006
		Read	-	21 Apr 2007

TO BE CAPT

Manish Kumar	(MR-08939L)	AMC	21 Apr 2006
--------------	-------------	-----	-------------

With seniority for pay and promotion from 21 Apr 2003 (This include 36 months of antedate of seniority for Doctor Medicine (Pediatrics) which will count for pension not for gratuity.

(MoD Notification published in Gazette of India dated 19 Dec 2015 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

RK RANYAL
Air Vice Marshal
Addl DGAFMS (HR)
O/o The DGAFMS

(ARMY BRANCH)

No. 235, dated the 7th October 2016—The President is pleased to make the following appointment: -

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

(To be Lt w.e.f 16 Mar 2013)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to SSC (NT) - 95 course published in the Gazette of India dated 17 May 2014 under the heading “Short Service Commission” in the Regular Army is here by amended as under :-

For	ANUP SINGH TOMAR	SS-46300A	AVN
Read	ANOOP SINGH TOMAR	SS-46300A	AVN

ABHISHEK TEWARY
Maj
AMS 8B

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in